



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1936 (श0)
(सं0 पटना 776) पटना, मंगलवार, 23 सितम्बर 2014

सामान्य प्रशासन विभाग

सं0 4/वि0-1-107/2007- 8595./सा0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 25.06.2014

विषय:-आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के त्वरित संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय के लिए स्थायी रूप से राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन के संबंध में।

विभागीय कार्यवाही के त्वरित संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय के लिए पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विभागीय जांच आयुक्त, तीन अपर विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय एवं प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में चिह्नित संयुक्त आयुक्त विभागीय जांच के कार्यों का सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का स्तंभ- 4 में अंकित संख्या, स्तंभ- 5 में अंकित बैण्ड वेतन तथा स्तंभ- 6 में अंकित ग्रेड पे, गैर योजना मद में स्थायी रूप से पद सृजित किये जाते हैं :-

क्रं0	पदनाम	सेवा संवर्ग	पदों की संख्या	बैण्ड वेतन	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1.	उप सचिव	बि0स0से0	01	15600-39100	7600
2.	प्रधान आप्त सचिव	बि0स0आ0से0	01	9300-34800	6600
3.	प्रशाखा पदाधिकारी	बि0स0से0	01	9300-34800	4800
4.	सहायक	बि0स0से0	02	9300-34800	4600
5.	निजी सहायक	बि0स0आ0से0	05	9300-34800	4600
6.	आशुलिपिक	बि0स0आ0से0	05	5200-20200	2400
7.	निम्नवर्गीय लिपिक	बि0स0लि0से0	05	5200-20200	1900
8.	वाहन चालक	-	01	5200-20200	1900
9.	कार्यालय परिचारी	-	02	5200-20200	1800

2. सचिवालय संवर्ग के उपरोक्त पद स्थायी रूप से गैर योजना मद में सृजित है, जो विभागीय जांच आयुक्त की स्थापना के अधीन होगा ।

3. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय 94,28,568/- (चौरानवें लाख अठईस हजार पांच सौ अड़सठ रु०) मात्र है । उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष “2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-090-सचिवालय -0004-सामान्य प्रशासन विभाग के लिए विपत्र कोड संख्या- N2052000900004 से विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय में पदस्थापित उप-सचिव इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 776-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>